

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] मई दिवसी, मंगलवार, मई 3, 1983/वैशाख 13, 1905
No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 1983/VAISAKHA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

'Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation'

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

(भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

कां०आ० 351(अ)।—भारतीय चिकित्सा केंद्रीय पारंपरिक अधिनियम, 1970 (1970 का
13) का प्रथम सूचो के अनुसरण में केंद्रीय सरकार यह अध्यादेश करता है कि निम्नलिखित
नोटिफिकेशन के मातहत 3 और 5 में विनिर्दिष्ट राज्यों की सच गांवित सेवा की बाबत, आयुर्वेद,

सिद्ध और यूनानी चिकित्सा परिषद में प्राबलित स्थानों की संख्या वह होगी जो उक्त सारणी के कालम-2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं०	राज्य/संघ प्रासित क्षेत्र का नाम	सीटों की संख्या		
		आयुर्वेद	सिद्ध	यूनानी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	--	1
2.	असम	1	--	--
3.	बिहार	4	--	1
4.	गुजरात	2	--	1
5.	हरियाणा	2	--	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1	--	1
7.	जम्मू व कश्मीर	1	--	1
8.	कर्नाटक	1	--	1
9.	केरल	2	1	--
10.	मध्य प्रदेश	3	--	1
11.	महाराष्ट्र	3	--	1
12.	उड़ीसा	1	--	--
13.	पंजाब	2	--	1
14.	राजस्थान	2	--	1
15.	तमिलनाडू	1	2	1
16.	उत्तर प्रदेश	5	--	1
17.	पश्चिम बंगाल	1	--	--
18.	दिल्ली	1	--	1
योग		35	3	14

[सं० बी० 26018/2/82-निर्वाचन सेल]

एस०के० मुष्ताक० मंगुयात मजिद,

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(ISM Division)

ELECTION CELLS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1983

S.O. 351(E). - In pursuance of the First Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby determines that the number of seats allocated in the Central Council of Indian Medicine to each of the Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine shall be as specified in columns 3, 4 and 5 respectively of the Table below in respect of the States and Union Territory specified in the corresponding entries in column 2 of the said Table.

TABLE

Sr. No.	Name of the State/ Union Territory	Number of seats for		
		Ayurveda	Siddha	Unani
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	2	—	1
2.	Assam	1	—	—
3.	Bihar	4	—	1
4.	Gujarat	2	—	1
5.	Haryana	2	—	1
6.	Himachal Pradesh	1	—	1
7.	Jammu & Kashmir	1	—	1
8.	Karnataka	1	—	1
9.	Kerala	2	1	—
10.	Madhya Pradesh	3	—	1
11.	Maharashtra	3	—	1
12.	Orissa	1	—	—
13.	Punjab	2	—	1
14.	Rajasthan	2	—	1
15.	Tamil Nadu	1	2	1
16.	Uttar Pradesh	5	—	1
17.	West Bengal	1	—	—
18.	Delhi	1	—	1
Total :		35	3	14

[No. V, 26018/2/82-Election Cell]

S. K. SUDHAKAR, Jr. Secy.

